



HIM TEKNOFORGE LTD.

(formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited)



Regd. Office & Works : Village Billanwali, Baddi-173 205, Distt. Solan (Himachal Pradesh), INDIA
Phone : +91-7807777941, 7807777942, Fax : +91-1795-245467, CIN No.: L29130HP1971PLC000904

To,
Bombay Stock Exchange
Corporate Relationship Department,
Ground Floor, P J Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

Date: 07.09.2023

Subject: Intimation Under Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015-Notice of 52ND Annual General Meeting Advertised in Newspapers.

Scrip Code: 505712

Dear Sir,


We would like to inform you that the notice of 52nd Annual General Meeting of the company to be held on Friday, 29th September, 2023 is published in Following Newspaper – ‘Financial Express’ and ‘Jansatta’ on Thursday, 07th July, 2023. Same is also hosted on the website of the company- www.Himteknoforge.com.

This is for your information and record.

For Him Teknoforge Limited

Himanshu kalra
Company Secretary
Manager Secretarial and Legal

Chandigarh Office : SCO 19, 1st Floor, Sector 7-C, Madhya Marg, Chandigarh-160019, INDIA
Phone : +91-172-4183065, 2790439, Fax : +91-172-2651550
E-mail : teknoforge@himgroup.net Website : www.himteknoforge.com / www.gagl.net



HIM TEKNOFORGE LIMITED
CIN: L29130HP1971PLC000504
Regd. Office: Village Billanwali, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh - 173205
Tel: +91 (1795) 246351, 245466 Fax No: +91(1795)245467
E-mail: gujarat_gears@gmail.com Website: www.himteknoforge.com

NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 29th September, 2023 at the Registered Office of the Company at 11:00 am at Village Billanwali, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh - 173205.

Electronic copy of the Notice of the 52nd Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 have been sent to all the members whose e-mail id is registered with the Company/ Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address. The notice of 52nd AGM for the financial year 2022-23 is available on the Company's website www.himteknoforge.com and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date of 22nd September, 2023, may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business(es) as set out in Notice of 52nd AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members are informed that:

- the electronic transmission/ physical dispatch of Annual Report has been completed.
- the voting through electronic means shall commence on 26th September, 2023 at 9:00 am and end on 28th September, 2023 at 5:00 pm.
- voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on 28th September, 2023.
- in case any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2023 will be eligible for voting and in case having any queries relating to voting by electronic means, may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Shares Transfer Book of the Company will remain closed from 23rd September, 2023 to 29th September, 2023 (Both days inclusive).

Notice is also hereby given that Company has fixed cut-off date i.e. Friday, September 22, 2023 as the record date for the purpose of final dividend of Rs. 0.40/- per share (as recommended by the Board of Directors) for the financial year 2022-23, if approved by the shareholders of the company at the 52nd Annual General Meeting to be held on Friday, September 29, 2023.

Any person, who is member of company holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 22, 2023 shall be entitled to receive final dividend, if approved by the shareholders

For HIM TEKNOFORGE LIMITED
Sd/-
Himanshu Kalra
Company Secretary
Manager Secretarial and Legal

Date: 06.09.2023
Place: Baddi

CORRIGENDUM

ICICI Bank
Regd. Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara - 390 007
Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

This is with reference to the captioned E-Auction under the Sarfaesi act Notice published on **September 02, 2023** towards your aforementioned Borrower **B. Soni Jewellers** with ICICI Bank Ltd. We wish to mention that inadvertently and unintentionally the date of total outstanding dues mentioned as on July 31, 2023 instead of **August 02, 2023**. And the date of said dues are required to be paid mentioned as on or before October 24, 2023 instead of **September 25, 2023**. All other details mentioned in the above said notice will remain same.

We sincerely regret the inconvenience caused to you in this regard.

Date : **September 07, 2023** Authorized Officer
Place : **Ludhiana** ICICI Bank Limited

SHREYANS FINANCIAL AND CAPITAL SERVICES LIMITED
CIN: L65921PB1984PLC005967
Regd. Office: Shree Rishabh Paper Mill Premises, Village Banah, Nawanshahar (Punjab)-144 522 Tel: +91 1881 273627, 273628, Fax:+91-1881-273645, Email: sfcsi141@gmail.com, Website: www.sfcsi.co.in

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company in respect of Equity Shares of the Company shall remain closed from 24th September, 2023 to 30th September, 2023 (both days inclusive) for the 38th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Saturday, 30th September 2023 at 11:00 A.M. at the registered office of the Company.

Further notice pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, is also given as follows:

- Business as set out in the Notice of 38th Annual General Meeting dated 25th May, 2023 sent to all Shareholders, may be transacted by voting through electronic means.
- The remote e-voting window will open at 09:00 A.M. on 26th September, 2023 and close at 05:00 P.M. on 29th September, 2023.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 23rd September, 2023, may cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as well as voting through ballot at the AGM on the business as set out in the Notice of AGM.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2023, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request at sfcsi141@gmail.com.
- The remote e-voting module will be disabled after the above time line by CDSL and E-voting shall not be allowed thereafter.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
- The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise the right at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- Only those persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the annual general meeting.
- The Notice, including Voting instructions, is available on the CDSL website www.evotingindia.com and on the website of the Company at www.sfcsi.co.in.
- Any query/grievance connecting with voting by electronic means, should be addressed to Company Secretary at the above mentioned email id and/or address.

By order of the Board
Sd/-
Kirti Kumar Jain
Executive Director
DIN-00932391

Place : Ludhiana
Dated : 06.09.2023

FOR THE BUSINESS DAILY

FINANCIAL EXPRESS

THE BUSINESS DAILY

www.financialexpress.com

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8(1)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) Bathinda & Firozpur BRANCH	Description of secured asset (immovable property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Gurdas Singh, Mr. Gagarpreet Singh & Mrs. Jaspal Kaur (Prospect No.IL1037427)	All that piece and parcel of: Property out of Khatwa/Khatoni no. 176/400 comprised under Kharsa no. 172/42/2min(1-10), Land Area ad measuring 2178 sq. ft., Carpet Area ad measuring 1975 sq. ft., Built up Area ad measuring 1932 sq. ft., Chak Fateh Singhwala, Near Nakhani Master of Ash Chaki, Teh & Dist: BATHINDA- Punjab - 151101, INDIA	Rs. 3,30,398/- (Rupees Three Lakh Thirty Thousand Three Hundred Ninety Eight Only)	22-Jun-2023	04-Sep-23
Mr. Piana Singh, Mr. Surjit Kaur, Piana Singh Karyana Store & Surjit Steel Works (Prospect No. IL10315825)	All that piece and parcel of: Property Out of Khatwa No. 74, Khatoni No. 168, Comprised under Killa No. 71/3-0, Land Area ad measuring 5717 sq. ft., Carpet Area ad measuring 918 sq. ft., Built up Area ad measuring 1373 sq. ft., Jarna Rakha Uttar, Teh. & Dist. Firozpur, Jarna Rakha, Punjab, 152002, India.	Rs. 2,43,201/- (Rupees Two Lakh Forty Three Thousand Two Hundred One Only)	22-Jun-2023	04-Sep-23
Mrs. Karamjit Kaur, Mr. Rampal Singh, Mr. Bilu Singh & Tailor (Prospect No.IL1031794)	All that piece and parcel of: Property out of Khatwa/Khatoni No. 423/597, Kharsa No. 173/12/2(6-1) 173/6/12(0-7), Land Area ad measuring 1361 sq. ft., Carpet Area ad measuring 940 sq. ft., Built up Area ad measuring 1043 sq. ft., Patil Jarnmu, Village Dhapal, Teh. Phul Dhapal - Near Dana Mandi - BATHINDA- Punjab - 151104 - INDIA	Rs. 3,42,980/- (Rupees Three Lakh Forty Two Thousand Nine Hundred Eighty Only)	22-Jun-2023	04-Sep-23

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Sana Complex, Namdev Chowk, Opposite Bikaner Sweets, Bathinda - 151001 & SCO 21, 5TH FLOOR, LUDHIANA FERROZGANDI MARKET, LUDHIANA, PUNJAB - 141001 or Corporate Office: Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana

Place: Bathinda & Firozpur Date: 07/09/2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited

ACE EXPORTS LIMITED

Regd. Office:- 20/157, PATKAPUR, KANPUR-208001, UTTAR PRADESH
CIN: L19111UP1990PLC012053 E-Mail id: aceexportsknp@gmail.com
Ph: +91 9453026677, Website:- www.aeknp.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, September 30th, 2023 at 02:30 P.M. at Registered Office of the Company situated at 20/157, Patkapur, Kanpur-208001 (U.P.). As per the MCA and SEBI Circulars, electronic copy of the AGM Notice together with the Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 is being sent to all Members whose registered email IDs are available with the Company/RTA. The AGM Notice and the Annual Report will also be available on the Company's website (<https://www.aeknp.com>), MISEI website (<https://www.msei.in>) and also on the website of NSDL (<https://www.evoting.nsdl.com>).

Manner of registering email IDs in case the same are not already registered:

- Members holding shares in physical form may send an email request to evoting@nsdl.co.in or aceexportsknp@gmail.com along with the following details - folio no., name, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card, self-attested scanned copy of any address proof; (ii) Members holding shares in demat form may register their email IDs with their respective Depository Participants (DP).

Members will have an opportunity to cast their votes electronically, either remotely or during the AGM on the business set forth in the AGM Notice. The manner for doing so for Members who hold shares in demat form, physical form and for Members whose email IDs are not registered are being provided in the AGM Notice.

REMOTE E-VOTING

The Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility. The remote e-voting period shall commence on Wednesday, September 27th, 2023 (9:00 A.M.) and ends on Friday, September 29th, 2023 (5:00 P.M.). During this period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 23rd, 2023, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on September 29th, 2023 and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23rd, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or aceexportsknp@gmail.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

VOTING ON THE DAY OF THE AGM: Members, who have not cast their vote through remote e-voting, shall be eligible for vote at AGM venue.

BOOK CLOSURE: The register of members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 33rd Annual General Meeting. Mr. Pushp Raj Singh, Company Secretary (Membership No. FCS 4719) from M/s. P.R. Singh & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner. In case of any queries or grievances relating to electronic voting, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com> or the officials of NSDL at 022-24994736/14360. Members may also write to Company Secretary at aceexportsknp@gmail.com or registered office address of the Company.

Request to Shareholders: Your attention is drawn to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MRSD-PoD-19/ICR/2023/37 dated 16th March, 2023, wherein it has been decided by the SEBI to mandatorily update the PAN, KYC, Nomination details, Bank details, contact details and Specimen Signature of all shareholders holding shares in physical form and compulsory linking of PAN with Aadhar No. by all shareholders.

If the shareholders holding shares in physical mode do not update the PAN, KYC and Nomination details or these details are not made available to the Company/ their RTA by 30th September, 2023, then such folios shall be frozen by RTA on or after 01st October, 2023. All relevant form can be downloaded from the website of the Company and RTA at <https://www.aeknp.com> and www.skylinefta.com respectively.

Further, we are requesting for dematerialization of your existing physical shares of company.

For & On behalf of the Board
ACE EXPORTS LIMITED
Sd/-
R.S. Roofi Waker
(Managing Director)
DIN: 00641653

Date:- 06.09.2023
Place:- Kanpur

Frontier Springs Ltd.
(Largest Manufacturer of Springs for LHB Coaches)

Registered Office: KM 25/4, Kalpi Road, Rania, Kanpur-Dehat. 209304
CIN: L17119UP1981PLC005212
E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: <http://www.frontiersprings.co.in>
Tel. No. 05111-240212-13, 0512-2691207-08,

NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Forty Third Annual General Meeting ("Meeting") of the Members of the Company will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 12.00 P.M. at the Registered Office of the Company at Km 25/4, Kalpi Road, Rania, Distt. Kanpur Dehat-209304

Notice of the Meeting setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted thereat together with the Annual Report, inter-alia, including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2023, Auditor's Report, Directors' Report, Management Discussion and Analysis Report and Corporate Governance Report, Attendance Slip and Proxy Form has been sent to the members individually through electronic mode, who have registered their e-mail addresses with Depository Participants/ Registrar and Share Transfer Agent and to other members in physical mode to their registered address.

Notice is also given pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with applicable Rules framed thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining the eligibility of Members to receive dividend, if declared at the meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, applicable Secretarial Standards and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing its members remote e-voting facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed as specified in the Notice of the Meeting. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited as the Agency to provide e-voting facility.

Member are hereby informed that

- Notice of the meeting along with detailed procedure of remote e-voting is being sent to all the members of the Company.
- The remote e-voting period commences on 27th September, 2023 (9:00 A.M.) and ends on 29th September, 2023 (5:00 P.M.)
- Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after 4th September, 2023 i.e. BENPOS date considered for dispatch of the notice and holding shares on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 may obtain the Log-in Id and password by sending a request at evoting@cdsl.co.in or to the Registrar and Share Transfer Agent at lalitap@alankit.com. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.
- Cut-off date: 23rd September, 2023.
- Remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2023 (5:00 P.M.).
- The facility of voting through ballot paper shall be made available at the Meeting. Members attending the meeting who have already not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting through ballot paper.
- Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the Meeting, may also attend the meeting, but shall not be entitled to cast their votes again at the meeting.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

(a) Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website (www.frontiersprings.co.in) and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, during business hour up to the date of the Meeting. Notice of the meeting is also available on the website of the CDSL.

(j) In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's section available at CDSL's website and remote e-voting manual available at downloads section of <https://www.evotingindia.com> or call on toll free No. 18002005533. In case of any grievances connected with facility of remote e-voting you may contact Mr. Rakesh Dalvi, Assistant Manager, 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Tel No. 022-22723333; E-mail : helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Frontier Springs Ltd.
Sd/-
Dhruv Bhasin
(Company Secretary and Compliance Officer)

Place:- Kanpur
Date:- 06th September, 2023

NOTE:
1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (THE "MEETING") IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON A POLL INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE INSTRUMENT APPOINTING THE PROXY SHOULD, HOWEVER, BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY-EIGHT HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(formerly Fullerton India Credit Company Limited)
Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that deceased borrower namely **LATE MAHABIR SUBHASH CHAND** along with other Co-Borrowers namely **Sushma Mahabir, Arun Mahabir & Uditi Mahabir** had availed financial assistance of **Rs. 41,23,369/- (Rupees Forty One Lakhs Twenty Three Thousand Three Hundred and Sixty Nine Only)** from **SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Company Limited)** ("Secured Creditor") against immovable property bearing **All That Property Bearing Land Measuring 11 Mts. 11/56 Share Out Of Total Land 3k-16m, Comprised In Khatwa No. 85 Min, Khatwa No. 116, Rect & Killa No.25 // 18/ 1/ 2(3-16) Situated As Waka Rakha Moja Village Rai Tehsil Rai District Sonapat Vide Transfer Deed No. 3857 Dated 08.10.2018 Registered In Office Of S.R. Rai, Bounded By Boundaries to East: Street 15ft., West: House Of Krishan, North: Street 11ft., South: House Of Hariom.** That, consequent to the defaults in repayment, the said loan account has been declared NPA and the SARFAESI proceedings will be initiated against the said Secured Asset. Meanwhile, the unfortunate demise of said Co-Borrower namely **LATE MAHABIR SUBHASH CHAND** has come to the knowledge of Secured Creditor and despite several efforts of Secured Creditor, it has not been able to trace the identities of legal heirs of the said deceased Borrower.

Therefore by way of the present public notice, the legal heirs of the deceased co borrower namely **LATE MAHABIR SUBHASH CHAND** are hereby requested to intimate to the undersigned in writing about their identities with all necessary and supporting documents within 7 days from the date of publication hereof, failing which it shall be presumed that there are no legal heirs of the deceased borrower, whereupon Secured Creditor shall be at liberty to initiate proceedings in accordance with law including under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 read with Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and enforce its security interest against the said Secured Asset which shall include taking possession of the said Secured Asset and thereafter effecting sale of the same to recover its outstanding dues.

TAKE FURTHER NOTE that all previous notice(s) under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 (issued if any at earlier occasion) in respect to the Secured Debt(s) and/or Secured Asset(s) herein above may be deemed withdrawn.

Place: Sonapat Date: 07.09.2023 Sd/-, Authorised Officer.
SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

Bandhan Bank
Bandhan Bank Limited | CIN: L67190WB2014PLC204622
Registered Office: DN 32, SEC-V, Salt Lake City, Kolkata-700091

APPENDIX IV [Rule - 8(1)]
POSSESSION NOTICE
(FOR IMMOVABLE PROPERTY)

The undersigned being the Authorised Officer of Bandhan Bank Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter the "said Act") and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice(s) mentioned hereinafter and calling upon the borrowers/proprietor/guarantors/mortgagors to repay the amount mentioned in the demand notice(s).

The borrowers/proprietor/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/proprietor/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken **constructive possession** of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereinafter.

The borrowers/proprietor/guarantors/mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bandhan Bank Limited for the said amount with interest, incidental expenses, cost & charges etc.

The borrowers/proprietor/guarantors/mortgagors attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the said Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name & Address of the Borrower/Proprietor/ Guarantor(s)/Mortgagor(s)	1. Date of Demand Notice 2. Claim Amount as per Demand Notice 3. Date of constructive Possession	Description of the immovable Property(s)
1. M/s Supreme Tiles & Sanitary Wares (Borrower) 321, H-3, Baravan Khurd Thana, Amrapalli Yozna, Lucknow, Uttar Pradesh-226003 2. Mr. Vinit Kumar (Proprietor & Guarantor) S/o- Uma Shankar Gupta H-3/321, Baravan Khurd, Amrapalli Yojna, Thana Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh-226003 3. Mrs. Usha Gupta (Guarantor & Mortgagor) W/o- Uma Shankar Gupta 3/321, Amrapalli Yozna, Hardoi Road, Barawan Kalan, Lucknow, Uttar Pradesh-226101	1. June 12, 2023 2. Rs.12,87,715.98 as on June 9, 2023 3. September 1, 2023	Residential House No. H-3/321, Type 15/25 EWS, admeasuring area 25.11 sq. mtr. only situated at Baravan Khurd, Amrapali scheme, Hardoi Road, lucknow* in the name Smt. Usha Gupta. Boundaries: North by: House No. H-3/322, South by: House No. H-3/320, West by: 4.50 mtr. wide road, East by: House No. H-3/292
1. M/s Gazi Traders (Borrower) Plot No. 13, Canel Patri, Kanpur Nagar Uttar Pradesh- 208001 2. Mr. Shubham Jaiswal (Proprietor & Guarantor) 71/98 Sutarkhana, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208001 3. Mrs. Vijay Laxmi Jaiswal (Guarantor & Mortgagor) W/o- Ravi Prasad, 71/98 Sutarkhana, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208001	1. June 12, 2023 2. Rs.90,92,540.75 as on June 1, 2023 3. September 2, 2023	All that piece and parcel of the on commercial-Shop/Plot No.13-A, Canel Patri, Kanpur (U.P.)-208001. Property Owned by Mrs. Vijay Laxmi Jaiswal (Mother of proprietor) and land area-29.77 sq.mt. Boundaries: North by: Plot No. A-12, South by: Plot No. A-14, East by: Plot No. A-50, A-49 West by: Canal Road
1. M/s Shri Bala Ji Enterprises (Borrower) 79/14 Latouch Road Kanpur, Kanpur Nagar, Dist- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh: 208001 2. Mr. Sushil Kumar Garg (Proprietor, Guarantor & Mortgagor) S/o Murali Lal Garg 128/266, K Block, Puliyu No. 14, Near Nath Electronics, Yashoda Nagar, Kidwai Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208011 3. Mrs. Neeraj Garg (Guarantor & Mortgagor) W/o Mr. Sushil Kumar Garg 128/266, K Block, Puliyu No. 14, Near Nath Electronics, Yashoda Nagar, Kidwai Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208011	1. June 12, 2023 2. Rs.72,59,607.24 as on June 2, 2023 3. September 2, 2023	1. Shop No-10, Ground Floor, 79/14, Latouch Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001, Property owned by Mrs. Neeraj Garg, W/o- Sushil Kumar Garg, land area-11 sq. mtr*. Boundaries: North by: 8'0" wide common passage. South by: Premises No. 79/118, East by: Private Office No.11, West by: Private Office No. 09 2. Shop No-17A, 2 nd Floor, 79/14, Latouch Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001, Property owned by Mr. Sushil Kumar Garg, Land area-11 sq. mtr*. Boundaries: North by: Part premises No.79/14, South by: 3'6" wide common passage East by: Private Office No. 17 West by: Private Office No. 18

*together with all present and future, buildings, structures & all plant and machinery attached to the earth, and such movable parts as they may comprise of.

Date: September 7, 2023
Place: Uttar Pradesh

Sd/-
Authorised Officer
Bandhan Bank Limited

‘आप’ के साथ जाने को लेकर बोले पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वडिंग

‘आलाकमान हमसे पूछे बिना गठबंधन का निर्णय नहीं लेगा’

चंडीगढ़, 6 सितंबर (ब्यूरो)।

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बुधवार को कहा कि पार्टी की राज्य इकाई को भरोसा है कि आलाकमान हमारी सहमति के बिना 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन को लेकर कोई निर्णय नहीं लेगा। वडिंग ने दोहराया कि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई को पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने को कहा है।

इस बीच, पंजाब की पर्यटन मंत्री एवं आप नेता अनमोल गगन मान ने भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी और राज्य की सभी 13 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में आप के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई थी। राज्य इकाई के नेताओं ने वडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से आलाकमान को भी इस बात से अवगत कराने के लिए कहा था कि आप से गठबंधन के मुद्दे पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय अलग है। पंजाब में गठबंधन के एक सवाल का जवाब देते हुए वडिंग ने बुधवार को कहा कि पार्टी आलाकमान ने राज्य इकाई को किसी भी गठबंधन या सीट बंटवारे के बारे में नहीं बताया है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कांग्रेस पंजाब में मुख्य विपक्षी दल के रूप में लोगों से संबंधित

‘आप’ से गठजोड़ का विरोध कर रहे पार्टी नेताओं को नवजोत सिद्धू की नसीहत

चंडीगढ़, 6 सितंबर (ब्यूरो)।

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को कहा कि पार्टी आलाकमान का फैसला सर्वोच्च है। उनकी यह टिप्पणी राज्य कांग्रेस नेताओं द्वारा पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन का विरोध किए जाने की प्रतिक्रिया में आई है। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू का यह बयान राज्य में सतारूद दल आप के साथ किसी भी तरह के गठबंधन पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से उठाई जा रही कड़ी आपत्ति के बीच आया है।

सिद्धू ने ‘एक्स’ पर डाली अपनी एक पोस्ट में कहा, पार्टी आलाकमान का निर्णय सर्वोच्च है। यह एक अच्छे उद्देश्य के लिए है। संविधान की भावना

मुझे को जोरदार ढंग से उठा रही है।

वडिंग ने यहां कहा, हमें आलाकमान की ओर से 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा गया है। यह पूछे जाने पर कि पार्टी आलाकमान पंजाब में गठबंधन करने का फैसला लेता है, वडिंग ने कहा, आलाकमान सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। पार्टी आलाकमान जो कहेगा वही होगा। उन्होंने कहा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी आलाकमान हमारी सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेगा। उधर, गगन मान ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक दलों ने

का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा गया है। उन्होंने कहा, हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए निहित स्वार्थों से भरी राजनीति को त्याग दिया जाना चाहिए। चुनाव सिर्फ अगले कार्यकाल तक के लिए नहीं लड़े जाते, यह अगली पीढ़ी के लिए लड़े जाते हैं। जय हिंद, जुड़ेगा भारत।

पंजाब कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को कहा था कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पंजाब में आप के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ हैं। वैसे कांग्रेस और आप दोनों ‘इंडिया’ नामक गठबंधन के घटक दल हैं। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मंगलवार को कहा था कि वह पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ हाथ मिलाया है, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। पंजाब कांग्रेस द्वारा आप के साथ किसी भी गठबंधन का विरोध करने के बाद आप नेता की ओर से यह पहली टिप्पणी आई है।

गगन मान ने कहा, हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। पंजाब के लोग भाग्यवत् मान से प्यार करते हैं। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन बर्बाद नहीं किया जाएगा। कई कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं।

पंजाब विवि छात्र संघ का प्रधान पद एनएसयूआइ को

चंडीगढ़, 6 सितंबर (जनसत्ता)

पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआइ ने प्रधान पद पर जीत हासिल की है जिसमें उसके जतिंदर सिंह ने 3,002 वोट हासिल किए। सीवाईएसएस के दिव्यांश ठाकुर को 2,399 वोट मिले जबकि तीसरे स्थान पर अभाविप के राकेश देशवाल को 2,182 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर ‘साथ’ की रमणीकजोत कौर को 4,084 वोट मिले। कौर ने 765 वोटों के अंतर से यह सीट जीती। दूसरे स्थान पर निर्दलीय अनुराग वर्धन को 3,319 वोट हासिल हुए जबकि तीसरे स्थान पर आईएसए के गौरव चौहान रहे और उन्होंने 1,087 वोट पाए। महासचिव के पद पर दीपक गोयत ने

4431 वोट हासिल कर जीत हासिल की है जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अभाविप के अविनाश यादव को 2620 वोट हासिल हुए। दीपक गोयत ने 1,811 वोटों के अंतर से सीट जीती जो सभी प्रत्याशियों में यह सबसे बड़ी जीत है।

तीसरे स्थान पर सोपु की मेधा नैयर को 2158 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद पर पीयूएचएफ के गौरव चहल ने 3,140 वोट हासिल किए। गौरव को 103 वोटों से जीत मिली। दूसरे स्थान पर रहे एचपीएसयू के दिकित पालदोन ने 3,037 वोट पाए। तीसरे स्थान पर 1983 वोटों के साथ पूरु के धीरज गर्ग रहे।

दूसरी ओर, स्थानीय एमसीएम डीएवी महिला महाविद्यालय में छात्र परिषद के चुनाव में 802 विद्यार्थियों ने अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मताधिकार का

प्रयोग किया। निर्वाचित प्रधान बेनजीर सना यमखैबम और निर्वाचित उप प्रधान लज्जा बावा अपनी जीत के कारण 7वें आसमान पर थीं। छात्रा प्रणत ने सचिव पद पर जगह बनाई, जबकि मनल चौधरी संयुक्त सचिव चुनी गईं।

सेक्टर 10 के डीएवी कालेज में सोई के जशनप्रीत सिंह ने प्रधान पद पर जीत हासिल की है। उप प्रधान पद पर कार्तिकेय बिष्ट, सचिव पद पर गौरव वर्मा और संयुक्त सचिव पद पर प्रथम विजेता घोषित हुए।

सेक्टर-32 स्थित एसडी कालेज में प्रधान पद पर परविंदर सिंह ने जीत हासिल की, उन्हें 1313 वोट मिले। उप प्रधान पद पर सक्षम भटेजा चुने गए। सचिव पद पर हर्ष चौहान विजेता रहे। संयुक्त सचिव पद पर उर्विजा बाली

विजेता बनीं। सेक्टर-26 के गुरु गोविंद सिंह बल्लू कालेज में प्रधान पद पर कमलप्रीत कौर ने जीत दर्ज की है। सचिव पद पर नवनीत कौर और संयुक्त सचिव पद के लिए वृंदा को चुना गया।

सेक्टर-42 के राजकीय स्वतंत्रकोत्तर कन्या महाविद्यालय में एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा नेहा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की और उपाध्यक्ष पद पर रोजी को निर्वाचन चुना गया। सचिव पद पर हर-उम्मीद कौर ने जीत दर्ज की। स्नेहा निर्विरोध संयुक्त सचिव चुनी गईं।

सेक्टर-11 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में पूजा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता जबकि अकिता रावत ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। महासचिव पद पर जसलीन कौर और संयुक्त सचिव पद पर प्रेरणा ने जीत दर्ज की है।

अंबाला में कांग्रेस की बैठक में हुड्डा और सैलजा खेमे ने नारेबाजी की

अंबाला, 6 सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जींद और करनाल के बाद आज अंबाला छावनी के कांग्रेस भवन में हुई पार्टी पर्यवेक्षक की मौजूदगी में दोनों गुटों के बीच खूब हंगामा हुआ। हुड्डा और कुमारी सैलजा गुटों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। कुमारी सैलजा गुट के समर्थकों ने नारे लगाए कि वह हुड्डा बाप-बेटे की नहीं चलने देंगे। वहीं, हुड्डा गुट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारेबाजी की। यही नहीं, दोनों गुट एक दूसरे से दूर-दूर बैठे दिखाई दिए। कुमारी सैलजा गुट के कार्यकर्ता तो कांग्रेस भवन में थे तो हुड्डा खेमे के नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के बाहर एक दुकान में खड़े दिखाई दिए। अंबाला में बुधवार को कांग्रेस की

संगठनात्मक प्रक्रिया को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें हुड्डा व सैलजा गुट में काफी खींचतानी देखने को मिला।

इस दौरान पर्यवेक्षक शाबिर खान पठान व समन्वयक रघुवीर तेवतिया, जयपाल लाली के सामने ही सैलजा और हुड्डा गुट के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और अपने-अपने नेताओं के नारे लगाए। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लोग कि हाथापाई हो जाएगी। पर्यवेक्षक दोनों गुटों को समझाते नजर आए। बाद में पर्यवेक्षक ने गुटबाजी से इनकार किया और कहा सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में संगठन नहीं बन पाने की वजह से पिछले कई सालों में प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी जारी है। इस समय पार्टी में दो गुट हैं। पहला हुड्डा का है जिसके पास पार्टी के दो तिहाई से भी ज्यादा विधायक हैं व दूसरा खेमा सुरजेवाला, सैलजा और किरण चौधरी का है।

सुशखबरी

हरियाणा सरकार का फैसला

अनुबंधितों का वेतन 10 से 20 फीसद बढ़ा

चंडीगढ़, 6 सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में दस से बीस प्रतिशत वृद्धि की है। बढ़ा हुआ वेतन एक सितंबर से लागू माना जाएगा।

सरकार के इस फैसले से सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों और सरकारी प्रतिष्ठानों में लगे एक लाख से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। निगम ने तीनों श्रेणी के जिलों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के वेतन की दरों में बदलाव किया है। कच्चे कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सभी जिलों को महंगाई के

प्रथम श्रेणी के जिलों में वेतन

5 वर्ष तक अनुभव	(आधार मूल्य)
5-10 वर्ष का अनुभव	(आधार मूल्य 10 प्रतिशत)
10 वर्ष से अधिक अनुभव	(आधार मूल्य 20 प्रतिशत)
लेवल-1	18,400 20,250 22,100
लेवल-2	21,650 23,850 26,000
लेवल-3	23,200 24,550 26,800

अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा है। प्रथम श्रेणी के जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं।

द्वितीय श्रेणी के जिलों में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद तथा तृतीय श्रेणी जिलों में महेंद्रगढ़,

द्वितीय श्रेणी के जिलों में वेतन

5 वर्ष तक अनुभव	(आधार मूल्य)
5-10 वर्ष का अनुभव	आधार मूल्य 10 प्रतिशत
10 वर्ष से अधिक अनुभव	आधार मूल्य 20 प्रतिशत
लेवल-1	16,250 17,900 19,500
लेवल-2	19,450 21,400 23,250
लेवल-3	20,100 22,150 24,150

फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी हैं। पांच साल तक का अनुभव रखने वाले कर्मियों को बेसिक दर के हिसाब से वेतनमान मिलेगा, जबकि पांच से 10 साल का अनुभव रखने वाले कर्मियों के वेतन में 10 प्रतिशत और इससे अधिक अनुभव रखने वाले कर्मियों को 20 फीसद ज्यादा वेतन दिया जाएगा।

खबर कोना



चंडीगढ़ के सेक्टर-40 स्थित मंदिर में बुधवार को जन्माष्टमी पर्व पर मटकी फोड़ते श्रद्धालु।

जी-20 बैठक के कारण

कई रेलगाड़ियां रद्द

अंबाला, 6 सितंबर (जनसत्ता)।

दिल्ली में जी-20 सम्मेलन संबंधी सुरक्षा इंतजामों के तहत उत्तर रेलवे ने 207 रेलगाड़ियों को रद्द रखने का फैसला किया है। इनमें अंबाला छावनी स्टेशन से निकलने वाली 21 रेलगाड़ियां शामिल हैं। इनमें से अधिकतर रेलगाड़ियां 9 से 10 सितंबर के बीच बंद रहेंगी। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार के मुताबिक, रेलगाड़ी नंबर 14682 जलंधर सिटी-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 12459 और 60 नई दिल्ली-अमृतसर-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 14681 व 82 नई दिल्ली-जलंधर सिटी एक्सप्रेस-नई दिल्ली नौ और 10 सितंबर को रद्द रहेंगी। इसी प्रकार 22429 दिल्ली-पटानकोट 10 सितंबर को, 14522 अंबाला-दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल, 14508 फाजिल्का-दिल्ली एक्सप्रेस, 14507 दिल्ली-बठिंडा एक्सप्रेस, 14521 दिल्ली-अंबाला एक्सप्रेस आदि रद्द रहेंगी।

धूमधाम से मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व

चंडीगढ़, 6 सितंबर (जनसत्ता)।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय आनंद निकेतन, 1008, सेक्टर-46बी, चंडीगढ़ में गुरुवार को को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्र संचालिका बीके पुनम दीदी ‘राजयोग मंडिटेशन’ करवाएंगी। कार्यक्रम समय शाम 6से 8 बजे तक रहेगा।

अवैध निर्माण रोकने को

पंचकूला प्रशासन की रूपरेखा तैयार

पंचकूला, 6 सितंबर (जनसत्ता)।

पंचकूला के उपायुक्त सुशील सारवान ने बुधवार को यहां लघु सचिवालय में मोरनी इलाके में जारी अवैध निर्माण रोकने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जिला प्रशासन अवैध निर्माण की सूची तैयार करा रहा है और नियमानुसार इन पर कार्रवाई होगी। बैठक में उपायुक्त ने मोरनी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चर्चा में कहा कि उन्हें धराशाई करने को तोड़फोड़ अभियान चलाएं।

Ind-Swift Ltd.
Regd. Off.: 781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002.
CIN: No. L24230CH1986PLC006897
Ph. No. 0172-2638781/4680800 Fax No. 0172-2652242/2655406.
E-mail: companysec@indswift.com Website: www.indswift.com

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("the AGM") of Ind Swift Limited will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 01:00 PM through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the business as set out in the AGM Notice. In compliance with the Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Issued by the Securities and Exchange Board of India ("the SEBI") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015 SEBI (LODR) without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.

In compliance with the Circulars, the Annual Report 2022-23 including the AGM Notice has been sent only through electronic mode (by e-mail) on 5th September, 2023, to those members whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") or the respective depository participants ("DPs") and has also been made available on the Company's website at www.indswift.com, and websites of the stock exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evotingindia.com.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 25th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM of the Company.

In terms of Section 108 and other applicable provisions of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (LODR), the Company is providing to all its members, the facility to exercise their vote by electronic means ("e-voting") on the business set forth in the Notice of the AGM. The Company has engaged the services of CDSL as the authorized agency for providing e-voting (remote and at the AGM) facility to its members and for conducting the AGM through VC/OAVM facility.

The Board has appointed Mr. Vishal Arora, Practising Company Secretary (Membership No. 4566), as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

All members are informed that:

- The business set forth in the notice of the AGM shall be transacted through remote e-voting and e-voting at the AGM.
- A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off Date i.e. 23rd September, 2023, only shall be entitled to vote through remote, e-voting or e-voting at the AGM and for participation in the AGM through VC/OAVM facility.
- The Remote e-voting period commences on Wednesday, 27th September, 2023, at 09:00 a.m. (IST) and ends on Friday, 29th September, 2023. The Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Friday, 29th September, 2023.
- Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is: 230901039.
- Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- As per the provisions of Section 103 of the Act, members attending the AGM through VC/OAVM facility will be counted for the purpose of reckoning the quorum. Facility for appointing proxy for the AGM will not be available.
- Only those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the AGM Notice, may hold shares as on the Cut-off Date i.e. Saturday, 23rd September, 2023, and obtains the User ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. A person who is not a member as on the Cut-off Date should treat this Notice of the AGM for information purpose only.

Process for those members whose e-mail IDs are not registered with the DPs/RTA for procuring User ID and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in the notice-

- In case shares are held in physical form** - Register/update the details in prescribed form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agents of the Company, Alankit Assignments Limited at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055 or through email at kycupdate@alankit.com. Member may download the prescribed forms from the Company's website at: <http://www.indswift.com/images/shareholder-services.pdf>.
- In case shares are held in demat form** - Register/update the details in your demat account, as per process advised by your Depository Participant (DP)

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact at 022-23058542/43. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dahiya, Sr. Manager, at 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013; Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com or aforesaid number.

Members are advised to keep their KYC and bank account details updated. The process for updating these details is provided in the AGM Notice.

For **IND-SWIFT LIMITED**
Sd/-
Ginny Uppal
Company Secretary

Date: 06/09/2023
Place: Chandigarh

हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड
CIN: L29130HP1971PLC000904

पंजी. कार्यालय: गांव किल्लावाली, बढी, जिला सोहन हिमाचल प्रदेश- 173205
टेली: +91 (1795) 246351, 245466 फैक्स नं. +91 (1795) 245467
ई-मेल: gujarat.gears@gmail.com वेबसाइट: www.himteknoforge.com

सूचना
वार्षिक सामान्य बैठक

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 52वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय गांव किल्लावाली, बढी, जिला सोहन, हिमाचल प्रदेश-173205 में शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।

52वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी/पॉलिनिफिकेशन के साथ पंजीकृत है। इसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पत्तों पर भेज दी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की 52वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.himteknoforge.com तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (ईडिवा) लिमिटेड (सीडीएसएसएल) www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कट ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2023 को शेयर धारक सदस्य या तो भौतिक या डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (ईडिवा) लिमिटेड (सीडीएसएसएल) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 52वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष व्यापार पर अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- वार्षिक रिपोर्ट को भौतिक/ इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का कार्य पूरा कर लिया है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोटिंग 26 सितंबर, 2023 को प्रातः 09:00 बजे से शुरू और 28 सितंबर, 2023 को सायं 5:00 बजे बंद हो जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोटिंग 28 सितंबर, 2023 को सायं 5:00 बजे के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर अंशित करता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितंबर, 2023 को शेयरधारक है, वह वोटिंग के लिए पात्र होगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा वोटिंग से संबंधित किसी पृष्ठछाछ के लिए www.evotingindia.com के अंतर्गत हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल तथा फ्रॉन्टवेंडरली आस्कड क्वेश्चनस ("एफएक््यूज़") को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिखें।

कंपनी एक एक्ट, 2013 तथा उसके अधीन लागू नियमों की धारा 91 के अनुवर्ती, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक 23 सितंबर, 2023 से 29 सितंबर, 2023 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

इसके द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 0.40/- रुपये प्रति शेयर (निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित) के अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिटर्नड तिथि के रूप में कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 तय की है, यदि शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को होने वाली 52वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखने वाली कंपनी का सदस्य है, शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित होने पर, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का हकदार होगा।

कृते हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड
ह/-
हिमांशु कालरा
कंपनी सचिव

स्थान: बढी
दिनांक: 06.09.2023
प्रबंधक सचिवीय और कानूनी